

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 3-16-2019-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13 नवम्बर 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) वाणिज्यिक कर विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : वाणिज्यिक कर विभाग(आबकारी आयुक्त)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमा र्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	जिला आबकारी अधिकारी	31	31	02	01	0	01	0	02	
	सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	01	0	0	0	0	0	0	
	सिस्टम मैनेजर	01	01	0	0	0	0	0	0	
	नेटवर्क मैनेजर	01	01	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	आबकारी उप निरीक्षक	372	372	22	06	05	06	05	22	
	स्टेनोग्राफर	03	03	0	0	0	0	0	0	
	रसायनज्ञ (केमिस्ट)	01	01	0	0	0	0	0	0	
	सहायक प्रोग्रामर	03	03	0	0	0	0	0	0	
	स्टेनो टाईपिस्ट	01	01	0	0	0	0	0	0	
	आबकारी आरक्षक	1021	1021	61	16	15	15	15	61	
	वाहन चालक	78	78	0	0	0	0	0	0	
	आई.टी. ऑपरेटर	105	105	05	01	02	01	01	05	
सहायक ग्रेड-3	158	158	09	03	02	02	02	09		
चतुर्थ	भृत्य	331	331	10	03	02	03	02	10	
	चौकीदार/फरार्श	12	12	0	0	0	0	0	0	